

मेक इन इंडिया का आकलन: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 27/12/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“There is no substitute for an industrial policy”](#) लेख पर आधारित है। इसमें 'मेक इन इंडिया' नीति और इसकी कमियों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें यह चर्चा भी की गई है कि रोजगार सृजन के लिए एक औद्योगिक नीति की आवश्यकता है जो मेक इन इंडिया का एक अप्राप्य लक्ष्य रहा है।

प्रलिमिस के लिये:

[मेक इन इंडिया पहल, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति, उत्पादन-लक्षित प्रोत्साहन \(PLI\) योजना।](#)

मेन्स के लिये:

मेक इन इंडिया: उद्देश्य, सफलता और वफ़िलताएँ; औद्योगिक नीति किस प्रकार रोजगार सृजन में मदद कर सकती है।

वर्ष 2014 में लॉन्च की गई [‘मेक इन इंडिया’ \(Make in India- MII\) पहल](#) 1970 के दशक में आजमाई गई भारत की आत्मनिर्भरता की नीति (policy of self-sufficiency) से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। अतीत के दृष्टिकोण के विपरीत, मेक इन इंडिया पहल लाइसेंस राज, आत्मनिर्भरता या आयात-प्रतिस्थापनकारी औद्योगीकरण की स्मृतियों नहीं उत्पन्न करती। यह व्यापक रूप से अलग है, हालाँकि कुछ क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के कार्यान्वयन को लेकर चर्चाएँ जताई गई हैं।

मेक इन इंडिया नीति क्या है?

■ नीति:

- मेक इन इंडिया पहल [घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक वनिरिमाण केंद्र में बदलने के लिये वर्ष 2014](#) में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- यह अभियान [नविश को सुवधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को संवृद्ध करने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और श्रेणी वनिरिमाण अवसंरचना में सर्वोत्कृष्ट का नरिमाण करने के लिये लॉन्च किया गया।](#)

■ उद्देश्य:

- वनिरिमाण क्षेत्र की [विकास दर को बढ़ाकर 12-14% प्रतिवर्ष](#) करना।
- वर्ष 2022 तक (बाद में इसे संशोधित कर 2025 कर दिया गया) [वनिरिमाण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार](#) अवसर सृजित करना।
- वर्ष 2025 तक [सकल घरेलू उत्पाद में वनिरिमाण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाना।](#)

■ रणनीतियाँ:

- [व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:](#) कंपनियों के लिये भारत में व्यापार करना सुगम बनाने के लिये नौकरशाही बाधाओं को कम करना और नियमों को सरल बनाना।
- [अवसंरचना का विकास करना:](#) उद्योगों के लिये विश्वसनीय एवं सक्षम अवसंरचना प्रदान करने के लिये बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और बजिली उत्पादन का उन्नयन करना।
- [कार्यबल को कुशल बनाना:](#) वनिरिमाण क्षेत्र के लिये कुशल श्रमिकों के पूल के नरिमाण के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों में नविश करना।
- [नविश को प्रोत्साहन देना:](#) वनिरिमाण क्षेत्र में विदेशी एवं घरेलू नविश को आकर्षित करने के लिये कर छूट, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों की पेशकश करना।
- [प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:](#) विकास के लिये विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करना, जैसे ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स।

■ डेरिवेटिव: मेक इन इंडिया के कम से कम दो अन्य डेरिवेटिव भी हैं: 'मेड इन इंडिया' और 'मेक फॉर इंडिया'।

- [मेड इन इंडिया \(Made in India\)](#) से तात्पर्य है भारत में उत्पादों की असेंबली या वनिरिमाण, भले ही उनके घटक विदेश में वनिरिमित किये गए हों।
 - यह मूलतः श्रम, पूंजी, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी आदि भारतीय उत्पादन पहलुओं का उपयोग करने वाले वनिरिमाताओं को बढ़ावा देने

के लिये एक ब्रांडिंग रणनीति है।

- मेक फॉर इंडिया (Make for India) से तात्पर्य ऐसे उत्पादों के उत्पादन से है जिनका भारत में ही उपभोग किया जाना है और जहाँ घरेलू बाज़ार के लिये वनरिमाण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मेक इन इंडिया की शुरुआत के पीछे क्या तरक था?

- मेक इन इंडिया को वर्ष 2014 में एक सुदृढ़ एवं प्रतस्पर्द्धी वनरिमाण क्क्षेत्र का नरिमाण करने के लिये डिज़ाइन की गई पछिली पहल **जैसे NIP 2011, अरथवयवस्था का उदारीकरण आदी** की अगली कड़ी के रूप में लॉन्च किया गया।
- भारतीय वनरिमाण क्क्षेत्र की वृद्धि अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना, एक जटिल एवं भ्रष्ट नयामक वातावरण और कुशल शर्मबल की अपर्याप्त उपलब्धता जैसे कारकों से बाधित थी।
- मेक इन इंडिया को सकल घरेलू उत्पाद में वनरिमाण क्क्षेत्र के योगदान को 1980 के दशक की शुरुआत से ही गतहीन 15% से बढ़ाकर कम से कम 25% करने और 100 मिलियन अतरिकित रोजगार अवसर सृजित करने के लिये लॉन्च किया गया।
 - हालाँकि, स्पष्ट है कि यह इस दृष्टिकोण से सफल नहीं हुआ।
- राष्ट्रीय वनरिमाण नीति (NMP) 2011 के गतशील उद्देश्यों के अलावा, इसका उद्देश्य “भारत को एक वैश्विक डिज़ाइन और वनरिमाण नरियात केंद्र में बदलना” था। दूसरे शब्दों में, वशिव के लिये मेक इन इंडिया का लक्ष्य रखा गया था।

मेक इन इंडिया की सफलताएँ और वफिलताएँ क्या रही हैं?

- सफलताएँ:**
 - भारत ने **वशिव बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक (Ease of Doing Business Index)** में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है जहाँ वर्ष 2014 में 142वें से वर्ष 2020 में 63वें स्थान पर पहुँच गया।
 - भारत ने रक्षा, रेलवे, नागरिक उड्डयन जैसे वभिन्न क्क्षेत्रों को नजी एवं वदिशी नविश के लिये खोल दिया।
 - भारत ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा जैसे कुछ क्क्षेत्रों में वृद्धि देखी है।
 - भारत मोबाइल फोन वनरिमाण में अग्रणी देश बन गया जहाँ वर्ष 2017-18 में 200 से अधिक इकाइयों ने 225 मिलियन से अधिक हैंडसेट का उत्पादन किया।
- वफिलताएँ:**
 - भारत अपने उत्पादों और सेवाओं के लिये एक अंतरराष्ट्रीय वशिषिट बाज़ार का नरिमाण कर सकने में वफिल रहा।
 - भारत वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में वनरिमाण क्क्षेत्र की हसिसेदारी को 25% तक बढ़ाने, 100 मिलियन अतरिकित रोजगार अवसर सृजित करने और वनरिमाण वकिस को 12-14% प्रतवर्ष तक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकने में वफिल रहा।
 - भारत को नीतगित गतहीनता (policy paralysis), प्रतस्पर्द्धात्मक लाभ की कमी, नविश संकट, व्यापार संरक्षणवाद, अवसंरचनागत बाधाएँ, शर्म संबंधी मुद्दे जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

मेक इन इंडिया अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में वफिल क्यों रहा?

- मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में **प्रोडकशन-लकिड प्रोतसाहन (PLI) योजना** लागू की गई जिसका उद्देश्य था प्रमुख क्क्षेत्रों एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में नविश आकर्षित करना; दक्षता सुनश्चिति करना और वनरिमाण क्क्षेत्र में आकारिक एवं मतिव्ययी लाभ (economies of size and scale) का नरिमाण करना तथा भारतीय कंपनियों एवं वनरिमाताओं को वशिव स्तर पर प्रतस्पर्द्धी बनाना।
 - अतरिकित लक्ष्य सोने पर सुहागा की तरह होते हैं, लेकिन हमारे वृहत कार्यबल, वशिषकर महिलाओं के लिये, रोजगार पैदा करने का प्राथमिक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।
 - यह केवल शर्म-गहन वनरिमाण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। चीन का उदाहरण बतलाता है कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिये वनरिमाण में ‘स्केल’ का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है।

क्या MSMEs रोजगार की समस्या का समाधान कर सकते हैं?

- भारत का शर्म बाज़ार अनुसंधान असंगठित क्क्षेत्र में कम वेतन, नमिन उत्पादकता और मुख्यतः अनौपचारिक नौकरियों की उपस्थिति की ओर इंगति करता है।
- भारत के 63 मिलियन **सुकषम, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** में से 99% से अधिक असंगठित क्क्षेत्र में कार्यरत हैं, जनिमें उत्पादक रोजगार सृजन के लिये बहुत कम लचीलापन पाया जाता है।
 - उनका महज नरिवाहकारी अस्तित्व (hand-to-mouth existence) रोजगार या स्केल के लिये कोई नुस्खा सदिध नहीं हो सकता।

रोजगार सृजन के लिये क्या करने की आवश्यकता है?

- खलौने, रेडीमेड परधान और जूते जैसे क्क्षेत्रों के लिये PLI के अलावा एक सुवचारित राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की आवश्यकता है।**
 - PLI उच्च-स्तरीय वनरिमाण के लिये अच्छा है, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिये औद्योगिक नीति सबसे अच्छा विकल्प होगा।
- औसत शैक्षिक उपलब्धियों एवं कौशल वाले एक शर्म प्रचुर देश (labour abundant country) में वृहत उत्पादक रोजगार सृजन को आकार देने के लिये औद्योगिकी नीति आवश्यक है।

राष्ट्रीय औद्योगिक नीति रोज़गार सृजन में किस प्रकार मदद कर सकती है?

- पहले से मौजूद और नए उद्योगों को उनके उत्पादन, निर्यात एवं नवाचार का वसतिार करने के लिये **प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना**। इससे औद्योगिक क्षेत्र में श्रम एवं कौशल की मांग बढ़ सकती है और रोज़गार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
- सड़क, बंदरगाह, बजिली एवं डिजिटल नेटवर्क जैसी **अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी का विकास करना**, जो वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बना सके। इससे उद्योगों की दक्षता एवं प्रतस्पर्द्धात्मकता में सुधार हो सकता है और निर्माण एवं रखरखाव संबंधी क्षेत्रों में अधिक रोज़गार अवसर सृजति हो सकते हैं।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और आजीवन अधगम कार्यक्रमों के माध्यम से **कार्यबल के कौशल एवं क्षमताओं को बढ़ाना**, जो उद्योगों की ज़रूरतों और मांगों से संगत हो सकें। इससे श्रम बल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और ज्ञान-आधारित एवं उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में अधिक नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं।
- स्टार्ट-अप, छोटे एवं मध्यम उद्यमों और **सामाजिक उद्यमों के निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ और कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देना**। यह नवाचार एवं रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है और उभरते हुए एवं गतिशील क्षेत्रों में अधिक नौकरियाँ पैदा कर सकता है।
- **औद्योगिक नीति को नरिधनता उन्मूलन, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन शमन जैसे सामाजिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित** करना। यह सुनिश्चित कर सकता है कि औद्योगिक विकास समावेशी, संवहनीय एवं उत्तरदायी है और यह हरति एवं सामाजिक क्षेत्रों में अधिक रोज़गार उत्पन्न करता है।

नष्कर्ष:

भारत की प्रचुर श्रम शक्ति के लिये उत्पादक रोज़गार के अवसरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिये एक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति आवश्यक है। हालाँकि सरकार ने नई औद्योगिक नीति (NIP 23) को फलिहाल स्थगित कर रखा है, जिस पर दो वर्षों से अधिक समय से कार्य चल रहा था।

अभ्यास प्रश्न: भारत में रोज़गार सृजन चुनौती से निपटने में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के महत्त्व पर विचार कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पछिड़ती गई है।" कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)